



ANURADHA TIKKU

.... A Versatile Vocalist



# ANURADHA TIKKU ..... A Versatile Vocalist



PROFILE

## Anuradha Tikku

Anuradha Tikku is an artiste who has already carved a niche for herself in the world of Indian music. An extremely versatile singer, she has a repertoire which is rich, varied and exuberant, ranging from Classical Ragas to the Soulful Bhajans with Blend of Folk Music, Sufi & Ghazals. Born on the 16<sup>th</sup> of March, 1969 in far – flung valley village Mea Mandir of Shopiyan District of Jammu & Kashmir State, this illustrious singer was lucky enough to be initiated into music by his Uncle Late Shri Jagannath Raina, a devoted Devotional Musician herself, after which his formal training in vocal music started under his virtuoso Guru from Jaipur Gharana, the renowned Pandit Jugal Kishor Nigam.

After his untimed sad demise she then placed herself under the tutelage of Pandit Kundan Mal Sharma in Jaipur who instilled both vigor and luster in the voice of her talented disciple. She has also had the privilege of Learning under the Pandit Bholanath Mishra Some popular styles of singing of indian classical music i.e. Thumari, Dadra, Cheti, Hori, Tappa etc. for sometime. At present, she is honing her skills further under the noted Violoncellists and Rajasthani Folk Maestro, Pandit Jaikumar Panwar.


Presently living in Jaipur, Anuradha Tikku has a pleasing musical personality and sings in a voice, which is melodious, subtle, and deep. She successfully adapts her style to render fluent khayals, sprightly thumris, sensuous and soulful bajans. Her khayal expositions are impeccable with lively compositions and intricate & fluent tans. Her singing reveals a whole gamut of emotions and never fails to leave the audience mesmerized.

She has performed in many music conferences and festivals in many parts of India and it is a continue process. Many Regional TV channels i.e. ETV Rajasthan, Zee TV Punjabi, DD Kashir and also many audio No. by local Audio Series.



# ANURADHA TIKKU

..... A Versatile Vocalist



## Media News

**जयपुर समग्रोह में स्वीन्द्र जैन की संगीत संध्या**  
**तेरो जयपुर छै शुभ नाम गुलाबी नगरी तने प्रणाम**

जयपुर, 24 नवम्बर: जयपुर समग्रोह में आयोजित संगीत संध्या में स्वीन्द्र जैन की संगीत संध्या का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में स्वीन्द्र जैन ने अपने गायन के माध्यम से श्रोताओं को अपनी भक्ति गानों की ओर आकर्षित किया। कार्यक्रम में स्वीन्द्र जैन ने अपने गायन के माध्यम से श्रोताओं को अपनी भक्ति गानों की ओर आकर्षित किया।

**श्याम परिवार का वार्षिकोत्सव**  
**सनीरंजन वलव लेखक**  
**संस्कृत अध्ययन शिपका**

जयपुर, 24 नवम्बर: जयपुर समग्रोह में आयोजित संगीत संध्या का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में स्वीन्द्र जैन ने अपने गायन के माध्यम से श्रोताओं को अपनी भक्ति गानों की ओर आकर्षित किया।



जयपुर, 24 नवम्बर: जयपुर समग्रोह में आयोजित संगीत संध्या का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में स्वीन्द्र जैन ने अपने गायन के माध्यम से श्रोताओं को अपनी भक्ति गानों की ओर आकर्षित किया।

**श्याम परिवार का वार्षिकोत्सव**  
**स्वीन्द्र जैन के भक्ति संगीत से श्रोता मुग्ध**

जयपुर, 24 नवम्बर: जयपुर समग्रोह में आयोजित संगीत संध्या का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में स्वीन्द्र जैन ने अपने गायन के माध्यम से श्रोताओं को अपनी भक्ति गानों की ओर आकर्षित किया।

जयपुर, 24 नवम्बर: जयपुर समग्रोह में आयोजित संगीत संध्या का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में स्वीन्द्र जैन ने अपने गायन के माध्यम से श्रोताओं को अपनी भक्ति गानों की ओर आकर्षित किया।

ALSO PERFORMED ON



राजस्थान



## Contact us

G-4, Gulab Residency, D- 238, Bihari Marg, Banipark,  
Jaipur-302016 (Rajasthan) INDIA  
Phone : +91-0-141-4010144,45

